



SHL/SEC/2024

The Bombay Stock Exchange Ltd
Listing Department, 1st floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, Phiroze JeeJeeBhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

06.09.2024

The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range
Kolkata - 700 001 India

Scrip Code: 537253 at BSE

Dear Sir/Ma'am,

**Sub: (i) Intimation of Book closure date
(ii) Publication of Book closure date and intimation of dispatch of notice of the 50th AGM-reg.**

In continuation of our letter dated September 05, 2024 interalia convening of the 50th Annual General Meeting (AGM) of the Company on Monday, September 30, 2024 at 12:30 p.m. P.M./IST through Video Conferencing (VC)/ other Audio Visual Means (OAVM) for which Registered office of the Company at 38E/252A, Vijay Tower, 3rd floor, Panchsheel Commercial Complex, Shahpur Jat, New Delhi-110049, shall be deemed as the venue for the meeting, we wish to inform you that dispatch of notice of the 50th AGM to eligible shareholders of the Company **was completed on September 05, 2024.**

Publication of Book closure date pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, which will be started from Tuesday, 24.09.2024 to Monday, 30.09.2024 (both days inclusive) and interalia completion of dispatch of Notice of 50th AGM of the Company has been published both in English and Hindi version in the Pioneer newspaper on September 06, 2024.

Copy of newspaper clippings are enclosed herewith.

This is for your information and record please.

Thanking you,
Yours sincerely,

For SUNIL HEALTHCARE LIMITED

SATYENDU PATTNAIK
COMPANY SECRETARY
F7736

Encl: Newspaper clipping.dt. 06.09.2024

Sunil Healthcare Ltd.

38E/252-A, Vijay Tower, Opp Panchsheel Park Comm. Complex, New Delhi -110049

T: +91 -11-49435555/00, F: +91 -11-43850087 Email : info@sunilhealthcare.com, Web: www.sunilhealthcare.com

CIN No. : L24302DL1973PLC189662

Macron names Barnier as France's new PM

AP ■ PARIS

President Emmanuel Macron named EU former Brexit negotiator Michel Barnier as France's new prime minister on Thursday after more than 50 days of caretaker government. The appointment of the 73-year-old Barnier follows weeks of intense efforts by Macron and his aides to find a candidate who might be able to build loose groupings of backers in parliament and survive possible attempts by Macron's opponents to quickly topple the new government that Barnier will now put together and lead. A statement from Macron's office announcing Barnier's appointment said he'd been tasked "with forming a unifying government to serve the country and the French people."

"This appointment comes after an unprecedented cycle of consultations during which, in accordance with his constitutional duty, the president ensured that the prime minister and the future government would meet the conditions to be as stable as possible and give themselves the chances of uniting as broadly as possible," the statement said. Barnier, a career politician proud of his humble roots in France's Alpine region of Haute-Savoie, is no stranger to complex and difficult tasks: He was the European Union's chief negotiator in the difficult talks with Britain over its Brexit departure from the bloc. Barnier replaces Gabriel Attal, who resigned on July 16.

Netanyahu demands control of Gaza's border with Egypt

AP ■ JERUSALEM

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Wednesday that Israel must keep open-ended control of Gaza's border with Egypt, digging in on his stance on an issue that has threatened to derail cease-fire efforts.

Netanyahu's comments came as the United States is developing a new proposal for a cease-fire and hostage release, hoping to break a long deadlock and bring an end to the nearly 11-month-old war. The question of Israeli control of the Philadelphi corridor -- a narrow strip of land along Gaza's border with Egypt, seized by troops in May -- has become a central obstacle in the talks. Hamas has demanded an eventual full Israeli withdrawal from Gaza in the multi-phase

truce deal. Egypt, a mediator in the talks along with the U.S. and Qatar, has also demanded a concrete timeline for Israeli troops to leave the Philadelphi corridor. And on Wednesday, the United Arab Emirates, which established formal ties with Israel in the 2020 Abraham Accords, also criticized the Israeli stance. Speaking to foreign journalists, Netanyahu repeated his stance that Israel must maintain its hold on the border to prevent Hamas from rearming by smuggling weapons into Gaza. He said it was a vital part of the war goal of ensuring Hamas cannot repeat its Oct. 7 attack on Israel.

"Gaza must be demilitarized, and this can only happen if the Philadelphi corridor remains under firm control," he said, claiming Israeli troops had dis-

covered dozens of tunnels under the border. He said Israel would only consider withdrawing from the corridor when presented with an alternative force to police it. "Bring me anyone who will actually show us ... that they can actually prevent the recurrence" of smuggling, he said. "I don't see that happening right now. And until that happens, we're there." Families of remaining hostages have stepped up their demands that he agree to a deal after Hamas killed six hostages last week as Israeli troops appeared to be moving to rescue them. In angry public statements, hostage families have accused Netanyahu of blocking a deal and potentially sacrificing their loved ones' lives for the sake of holding the border strip. Hundreds of thousands of Israelis have taken to the streets in recent days, calling for a deal and saying time is running out to bring home the hostages alive. Netanyahu pushed back against the pressure, saying his stance was necessary to "ensure Hamas doesn't pose a threat to Israel."

"I can understand the torment of families," he said. "But the responsibility of leaders is not merely to share the sentiment, the emotion, but also to exercise judgment." Asked by journalists for a timeline on ending the war, he refused to give one. "How long can we do this? As long as it takes to achieve this victory. And I think we're getting a lot closer," he said.

Netanyahu repeatedly insisted holding the border would also pressure Hamas to release hostages. At one point, he erroneously claimed the invasion of Rafah in May forced Hamas' first release of hostages -- which took place months earlier in November under a weeklong ceasefire deal. He then said the deal was "the result of our invasion, the military pressure we put on them." The Palestinian news agency Wafa reported early Thursday that an Israeli drone strike killed five men and wounded another in a car in Tubas in the West Bank. The Israeli military said in a statement that it carried out "three targeted strikes on armed terrorists that posed a threat on the soldiers," without immediately elaborating. For more than a week, hundreds of Israeli forces have been carrying out the deadliest operation in the occupied West Bank since the Israel-Hamas war began.

BOMBAY MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LIMITED

(Est'd: 1939) (Multi State Scheduled Bank)
 Regd Head Office : Zain G. Rangoonwala Building, 78, Mohammed Ali Road, Mumbai - 400 003.
 Tel: 022-23425961/62/63/64, For Account Balance Enquiry Missed Call : 9512004406

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 87th Annual General Meeting of the Members (Shareholders) of BOMBAY MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LIMITED will be held on 30th September, 2024 at 10.00 A.M. at, Baitul Hujaj (Haj House), 2nd Floor, 7-A, M.R.A. Marg (Palton Road), Mumbai - 400 001, to transact the following business / agenda :

AGENDA

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on 18th September, 2023.
- To consider and adopt the report of the Board of Directors and the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and Auditors Report for the year ended as on 31st March, 2024.
- To appropriate Net Profit as recommended by the Board of Directors for the year ended 31st March, 2024.
- To approve the appointment of Statutory Auditors for the Bank for the year 2024 - 2025 and fix their remuneration.
- To consider the Annual Budget of the Bank for the year 2024 - 2025.
- To grant Leave of Absence to the Members of the Bank who have not attended this 87th Annual General Meeting.
- Any other issue / business with the permission of the Chair.
- To elect 18 Members of the Board of Directors for a term of 5 years i.e from 30th September, 2024 to 30th September, 2029.

Note : The information regarding the election programme are annexed hereto.

By Order of the Board of Directors
 Sd/-
(DR. M. SHAH ALAM KHAN)
 MANAGING DIRECTOR

- Date : 17th August, 2024
Place: Mumbai.
- If there is no quorum within half an hour after the appointed time, the meeting shall stand adjourned to 10.30a.m. the same day and agenda of the Original Meeting shall be transacted at the said venue, irrespective of the rule of quorum, in terms of the Bye laws.
- Any Member desiring information pertaining to Accounts, is requested to write to the Bank, at least six days in advance of the date of the Annual General Meeting.
- Copies of the Annual Report are available at the Head Office and the branches of the Bank.
- Election under Agenda item No. 8 of 18 members of Board of Director, shall be conducted by the Returning Officer, District / Magistrate / Collector Mumbai City, as per the schedule Election programme under order dated 16.08.2024 of Co-operative Election Authority, Government of India, Ministry of Co-operation, New Delhi.

Note: The information regarding the election program has already been published in newspapers on 19th August 2024 by the Returning officer appointed by the office of Co-Operative Election Authority New Delhi.

SUNLOC

SUNIL HEALTHCARE LIMITED

Regd. Office: 38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat, New Delhi-110049
 CIN-L24302DL1973PLC189662/Email ID: - info@sunilhealthcare.com/
 Web:- www.sunilhealthcare.com
 Tel:-+91-11-49435555/00, Fax: +91-11-43850087

NOTICE OF THE 50TH ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED TO BE HELD ON MONDAY, THE 30TH SEPTEMBER, 2024 AT 12:30 P.M. IST THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Monday, the 30th September, 2024 at 12:30 P.M. IST through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) for which Registered office of the Company at 38E/252A, Vijay Tower, 3rd Floor, Panchsheel Commercial Complex, Shahpur Jat, New Delhi-110049, shall be deemed as the venue for the meeting to transact the businesses as set out in the AGM Notice.

Pursuant to General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April, 13, 2020, 20/2020 dated May, 05, 2020, 02/2021 dated January, 13, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May, 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PO-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PO-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI"/ "Circulars"), Companies are permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ other Audio Visual Means (OAVM), without physical presence of the Members at a common venue.

In compliance of the aforementioned circulars, Electronic Notice of AGM alongwith the explanatory statement as per section 102 of Companies Act, 2013, and procedure of Remote E- Voting/ Evoting, attending of the meeting through video conferencing details, Annual Report for Financial year 2023-24 etc. has been sent electronically on Thursday, September 05, 2024 to all the members at their email address whose email IDs are registered with Company/RTA/Depository Participant (DP). Further, the same are also available on Company's website <https://www.sunilhealthcare.com/annual-reports>, website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com, and the website of Link Intime India Pvt. Ltd. i.e. <https://instavote.linkintime.co.in>

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India, members of the Company have been provided with the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 50th Annual General Meeting (AGM) by electronic means through E-Voting services. The company has engaged services of Linkintime India Private Limited for availing of Instavote platform for casting the vote through "remote e-voting"/ e-voting.

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Monday, the 23rd September, 2024, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic Instavote platform of Link Intime India Pvt. Ltd: <https://instavote.linkintime.co.in>

Pursuant to SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode can vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants only post 9th June, 2021. For detail Remote e-Voting Procedure, please refer Note no. 21 of the Notice of the 50th AGM.

- The members may note that:
- The remote e-voting period will commence at 9:00 A.M. on Friday, the 27th September, 2024 and will end at 5:00 P.M. on Sunday, the 29th September, 2024 and thereafter e-voting module shall be disabled by Evoting agency.
 - Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
 - The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date of Monday, 23rd September, 2024.
 - Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, 23rd September, 2024, may obtain the login ID and password by following the instructions of Remote e-voting given in Note no. 21 to the Notice of AGM.
 - A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Annual General Meeting through e-voting.
 - A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
 - Mr. Tara Chand Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No.5749 and CP no is 4078) and Proprietor of M/s. Jain Sharma & Associates, Company Secretaries, Jaipur has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote E voting process in a fair and transparent manner.
 - In case shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on : Tel: 022 -4918 6000. The Member may also contact at delhi@linkintime.co.in, cs@sunilhealthcare.com or to our RTA at rita@alankit.com or lalit@alankit.com.
 - For details instruction of e-voting and attending meeting through VC or OAVM, the members are requested go through the notice of the meeting (especially note no.22).

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Tuesday, 24.09.2024 to Monday, 30.09.2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

On order of the Board
For SUNIL HEALTHCARE LIMITED
 Sd/-
SATYENDU PATNAIK Regd. Office:
COMPANY & COMPLIANCE OFFICER 38E/252A, Vijay Tower, Shahpurjat, New Delhi-110049
 F7736 CIN No: L24302DL1973PLC189662
 Place-New Delhi Phone No: +91-11-49435555/00 Fax No 011-43850087
 Dated-September 05, 2024 Email ID: info@sunilhealthcare.com
 Web: www.sunilhealthcare.com

PUBLIC NOTICE

The Public at large is hereby informed that Mrs. Uma Gupta W/o Late Mr. Mohinder Gupta R/o House No. 502, Tower 14, Vipul Greens, Sohna Road, Opposite Nines Mall, Sector 48, Gurgaon, Haryana 122018 was the allottee of Unit No. FL.15, measuring 305.20 sq. ft., on the 2nd floor in "AIPL Central" Sector 65, Gurgaon, a project of M/s Advance India Projects Limited (Company). The said Mrs. UMA Gupta expired on 13th Nov leaving behind Mrs. Aparnaah Gupta (Daughter), as her only legal heirs. Mrs. Aparnaah Gupta has requested the Company to transfer the above Unit in the name of Mrs. Aparnaah Gupta Wife of Mr. Somil Gupta, after the demise of Mrs. Uma Gupta. Any person having any objection to this may please contact the Company officer, details as under, within 15 days of issue of this Public Notice, after which no claims shall be entertained or accepted by the Company.

Mr. AIPL Manager
M/S Advance India Projects Limited
5th Floor, AIPL Business Club Sector 62, Gurgaon, Haryana
Contact No. +91-92116888

PUBLIC NOTICE

Indoor Medical Records of all Patients admitted in this hospital from 01-04-2015 to 31-03-2021 are proposed to be destroyed as per policy of the Hospital. If any patient needs his medical records, he can contact the undersigned within one month of publication of this notice. If no enquiry is received during this period, the Indoor patient record shall be destroyed without any further Notice.

Medical Record Officer
Gupta Multispeciality Hospital
 Dhardhu Ram Mkt. Mata Ki Gali, Bawana, Delhi-39

RLF LIMITED
 CIN: L74999HR1979PLC032747
 Reg. Office: 14Kms, Gurgaon Pataudi Road, Village Jhund Sarai Veeran,
 Distt. Gurgaon, Harayana-122001
 Email:teamunited83@gmail.com; Tel: 011-41644995/49075251
 Website: www.rfltd.com

NOTICE OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting of the Members of RLF LIMITED will be held on Monday, 30th day of September, 2024 at 10:00 A.M. at "14 Kms, Gurgaon Pataudi Road, Village Jhund Sarai Veeran, Distt. Gurgaon, Harayana-122001" to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM for Financial Year 2023-24 on September 05, 2024 through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website (www.rfltd.com).

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (insta-vote) provided by Link-Intime India Private Limited. The voting of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, 23rd September, 2024 ("Cut-off date"). The remote E-Voting period commences on Friday, 27th September, 2024 (9:00 am) and ends on Sunday, 29th September, 2024 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime insta-vote thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 44th AGM of the Company.

Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. 23rd September, 2024 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz www.rfltd.com website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Link Intime viz <https://instavote.linkintime.co.in> Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM. Members are also informed that in case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and insta-Vote e-Voting module available at <https://instavote.linkintime.co.in> under download section or you can email us to enotices@linkintime.co.in or call us at: 022 -4918 6000.

For RLF LIMITED
 Sd/-
Aditya Khanna
 (Managing Director)

UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L17100HR1983PLC033460
 Reg. Office: Plot No. 66, Sector-34, EHTP, Gurgaon-122001 (Harayana)
 Email:teamunited83@gmail.com; Tel: 0124-4200274
 Website: www.uilltd.com

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Members of UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED will be held on Saturday, 28th day of September, 2024 at 10:30 A.M. at "PLOT NO. 66, SECTOR-34, EHTP GURUGRAM, HARYANA-122001" to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM for Financial Year 2023-24 on September 05, 2024 through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website (www.uilltd.com). In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (insta-vote) provided by Link-Intime India Private Limited. The voting of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Saturday, 21st September, 2024 ("Cut-off date"). The Remote E-Voting period commences on Wednesday, 25th September, 2024 (9:00 am) and ends on Friday, 27th September, 2024 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime insta-vote thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2024 to Saturday, 28th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 40th AGM of the Company.

Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. 21st September, 2024 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz www.uilltd.com website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Link Intime viz <https://instavote.linkintime.co.in> Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM. Members are also informed that in case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and insta-Vote e-Voting module available at <https://instavote.linkintime.co.in> under download section or you can email us to enotices@linkintime.co.in or call us at: 022-4918 6000.

For UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED
 Sd/-
Anil Kumar Khanna
 (Managing Director)

ICICI Bank

Branch Office: ICICI Bank Ltd, Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi-110005.

PUBLIC NOTICE-TENDER CUM E-AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

[See proviso to Rule 6(a)]
 Notice for sale of immovable asset(s)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction and Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Limited will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis as per the brief particulars given hereunder;

Sr. No.	Name of Borrower(s)/ Co-Borrowers/ Guarantors/ Loan Account No.	Details of the Secured asset(s) with known encumbrances, if any	Amount Outstanding	Reserve Price Earnest Money Deposit	Date and Time of Property Inspection	Date & Time of E-Auction
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	M/s. Hella G Communication (Borrower) Mr. Satya prakash Yadav (Co-Borrower/ Guarantor) Mr. Kiran Yadav (Guarantor/ Mortgagee) Loan Account No- 629105500692	Plot No. 703, 7th Floor, Wing A, In Finity Towers, Plot No. 18, Land Bearing CTS 35 A And 35A/1 to 12, of Village Pahadi Gurgaon East Taluk Borivoli, In The Registration District and Sub Distric. Admeasuring an area of 380 Sq ft.	Rs. 1,13,51,108.72/- (As on May 02, 2024).	Rs. 90,00,000/- Rs. 9,00,000/-	September 11, 2024 From 11:00 AM To 02:00 PM	September 25, 2024 From 11:00 AM onward

The online auction will be conducted on the website ([URL Link-https://disposalhub.com](http://url-link-https://disposalhub.com)), of our auction agency M/s NexGen Solutions Private Limited The Mortgagee/ Notices are given a last chance to pay the total dues with further interest by September 24, 2024 before 05:00 PM else the secured asset(s) will be sold as per schedule. The prospective bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD) (Refer Column E) at ICICI Bank Ltd, Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005 on or before September 24, 2024 before 04:00 PM Thereafter, they have to submit their offer through the website mentioned above on or before September 24, 2024 before 05:00 PM along with the scanned image of the Bank acknowledged DD towards proof of payment of EMD. In case the prospective bidder(s) is/ are unable to submit his/ her offer through the website, then the signed copy of tender documents may be submitted at ICICI Bank Ltd, Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005 on or before September 24, 2024 before 05:00 PM Earnest Money Deposit DD/PO should be from a Nationalised/ Scheduled Bank in favour of "ICICI Bank Limited" payable at Delhi. For any further clarifications in terms of inspection, Terms and Conditions of the E-Auction or submission of tenders, contact ICICI Bank Employee Phone No. 887973036/7304915594/9004392416. Please note that the Marketing agencies I. M/s NexGen Solutions Private Limited 2. Augeo Assets Management Private Limited 3. Motex Net Pvt. Ltd., have also been engaged for facilitating the sale of this property. The Authorised Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons. For detailed Terms and Conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s

Date : September 06, 2024
 Place: Delhi
 Authorized Officer
ICICI Bank Limited

RADICO KHAITAN FINANCE LIMITED

CIN No. L74899DL1984PLC019092
 Regd. Address: 4A, 4th Floor, Masoodpur Dairy Farms, New Delhi - 110070
 Telephone No: 011-17859609
 Email: Admin@radicoindia.com, Website: Radicoindia.com

Notice for 38th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting

(A) Annual General Meeting:
 Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of RADICO KHAITAN FINANCE LTD will be held on Monday, 30th Day of September, 2024 at 2.00 P.M. at Pt. Gyani Ram Farm House C/o Mr. Bijender Sharma, Advocate, Near Syndicate Bank, Main Road/Asola, Fatehpur Beri, New Delhi-110074.

(B) Book Closure:
 Notice is further given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th Day of September, 2024 to 30th Day of September, 2024, both days inclusive.

(C) E-Voting:
 In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Members are provided with the facility of e-voting on all resolutions set forth in the Notice.

The e-voting period commences on Friday, September 27, 2024 from 9.00 a.m. and ends on Sunday, September 29, 2024 at 5.00 p.m. The result of the e-voting shall be announced after the AGM of the Company.

For Radico Khaitan Finance Limited
 Sd/-
Krishan Kumar Sharma
 Director
 DIN: 00856406

APPENDIX IV-A

Sale Notice for sale of Immovable Property
 E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(a) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged to Sammaan Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN : L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on Tuesday, 25.09.2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 21,12,666/- (Rupees Twenty One Lakh Twelve Thousand Six Hundred Sixty Six only) pending towards Loan Account No. HHLVA500387234, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 16.08.2024 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan documents) w.e.f. 17.08.2024 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from VINOD TIWARI and RICHA TIWARI.

The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 21,38,500/- (Rupees Twenty One Lakh Thirty Eight Thousand Five Hundred only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 2,13,850/- (Rupees Two Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred Fifty only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. UG - 3, UPPER GROUND FLOOR, M. I. G., REAR LEFT HAND SIDE (WITHOUT ROOF RIGHTS), AREA ADMEASURING 55.74 SQ. MTR. I. E. 600 SQ. FT. COVERED AREA, CONSTRUCTED ON PLOT NO. B - 1/153, IN THE COLONY KNOWN AS "DLF DILSHAD EXT. - 2", SITUATED AT VILLAGE BHOPURA, TEH. & DIST. GHAZIABAD, UTTAR PRADESH.

BOUNDARIES:
 EAST : PLOT NO. B - 1/152
 WEST : FLAT NO. UG - 4
 NORTH : COMMON PASSAGE & FLAT NO. UG - 2
 SOUTH : OTHER PLOT

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No : 0124-6910910, +91 7065451024; E-mail id : auctionhelp@sammaanapital.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in.

sd/-
AUTHORISED OFFICER
SAMMAAN CAPITAL LIMITED
 (Formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

Date : 31.08.2024
 Place : GHAZIABAD

ADDI INDUSTRIES LIMITED

CIN: L51109DL1980PLC2565335
 Registered Office A-104, Third Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110020
 Phone: 011-45025469, Email: aludi.addi@gmail.com, addind@gmail.com
 Website: www.addiindustries.com

NOTICE OF THE 42nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE(S)

